Ph.: 0141-2771844 E-mail: info@bellacasa.in Website: www.bellacasa.in

CIN: L17124RJ1996PLC011522

E-102, 103, EPIP, Sitapura Industrial Area, Jaipur - 302022, INDIA

Ref-BSE/2023-24/23

Date: 03rd September, 2023

To,

**Corporate Relationship Department,** 

BSE Limited Phioze Jeejeebhoy Tower, Dalal Street, Mumbai – 400 001

# <u>Subject: Newspaper Advertisement pursuant to Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015</u>

Scrip Code-539399

Dear Sir/Ma'am,

Pursuant to Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith copies of the notice published in Financial Express (English Newspaper) and Dainik Navjyoti (Hindi Newspaper) on Saturday, 02<sup>nd</sup> September, 2023 informing that 27<sup>th</sup> Annual General Meeting of the Company is scheduled to be held on 27<sup>th</sup> September, 2023 at 12:00 P.M. through Video conference/Other audio-visual means, in compliance with the Ministry of Corporate Affairs General Circular No. 20/2020 dated May 5, 2020.

Kindly take this information on record.

Thanking you. Yours faithfully

For Bella Casa Fashion & Retail Limited

Sonika Gupta Company Secretary & Compliance Officer Membership No- A38676 BELLA CASA FASHION & RETAIL LIMITED Registered Office: E-102,103, EPIP, Sitapura

Industrial Area, Jaipur-302 022 (Rajasthan) website: www.bellacasa.in, CIN: L17124RJ1996PLC011522 Email: info@bellacasa.in,Tel: 0141-2771844

#### NOTICE Notice is hereby given that the Twenty Seventh (27<sup>th</sup>) Annual General

Meeting ("AGM") of the Company will be held on Wednesday 27<sup>th</sup>September, 2023 at 12:00 P.M. through Video Conferencing ("VC") Other Audio Visual Means ("OAVM") facility in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and Rules framed thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with General Circular Nos. 14/2020. 17/2020, 20/2020, 02/2021, 19/2021, 21/2021 and 02/2022 dated 08<sup>th</sup>April 2020, 13<sup>th</sup> April 2020, 05<sup>th</sup> May 2020, 13<sup>th</sup> January, 2021, 8<sup>th</sup> December, 2021, 14<sup>th</sup> December,2021 and 5<sup>th</sup> May,2022 respectively, issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars") and Circular Nos SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated 12<sup>th</sup>May 2020, Circular No SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated 15<sup>th</sup> January, 2021 SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated 13<sup>th</sup> May 2022 and SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4dated 05<sup>th</sup> January, 2023 issued by the Securities Exchange Board of India ("SEBI Circulars") without the physical presence of the Members at a common venue. The Notice of the 27th AGM and the integrated Annual Report for the

Financial Year 2022-23 including the financial statements for the financial year ended on 31st March, 2023("Annual Report") will be sent only by email to all those Members, whose email addresses are registered with the Company/Depository Participant(s)in accordance with the MCA Circular(s) and SEBI Circular. Member can join and participate in the 27<sup>t</sup> AGM through VC/OAVM facility only. The instructions for joining the 27<sup>th</sup> AGM and the manner of participation in the remote e-voting or casting vote through the e-voting system during the 27<sup>th</sup>AGM are provided in the Notice of 27<sup>th</sup> AGM. Members participating through the VC/OAVM facility shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under section 103 of Companies Act, 2013. The Notice of the 27th AGM and the Annual Report will also be made available on the website of the Company www.bellacasa.in and the website of Stock Exchange BSE Limited www.bseindia.com.

The members are requested to register their e-mail address, in respect of demat holdings with their respective Depository Participant by following the procedure prescribed by the depository participant. Members who have not registered their email address can cast their vote through remote evoting or through e-voting system during the meeting by following the procedure described in the Notice of 27<sup>th</sup> AGM.

Process for those Shareholders whose E-mail Addresses are not registered with the Depositories for obtaining Login Credentials for E-Voting For the Resolutions Proposed in this Notice:

For Demat shareholders -, please provide Demat account details (CDSL-16digit beneficiary ID or NSDL-16-digit DPID + CLID), Name, client master or copy of Consolidated Account statement, PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self-attested scanned copy of Aadhar Card) to Company mail id cs@bellacasa.in& RTA email id einward.ris@kfintech.com. In case of any queries, members may refer the Frequently Asked Questions

("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.com, under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at 1800 22 55 33.

The above information is being issued for the information and benefit of all the members of the company and in Compliance with MCA and SEBI circulars as amended from time to time.

For Bella Casa Fashion & Retail Limited Date: 01 September, 2023

Place: Jaipur

Sonika Gupta

(Company Secretary)

SHADI LAL **ENTERPRISES** LIMITED Regd. Office: Upper Doab Sugar Mills, SHAMLI 247776 (UP)

CIN: L51909UP1933PLC146675 Website-www.sirshadilal.com E-mail: udsm shamli@sirshadilal.com Ph: 01398- 250090

> **NOTICE OF 89TH ANNUAL GENERAL MEETING** E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

NOTICE is hereby given that the 89th Annual General Meeting (AGM) of the Members o SIR SHADI LAL ENTERPRISES LIMITED ("the Company") will be held through Video Conference ("VC") & Other Audio-Visual Means ("OAVM") on Monday, 25th September,

2023, 11.00 A.M. . The venue of the Meeting shall be deemed to be the Registered Office of the Company i.e., Upper Doab Sugar Mills, SHAMLI 247776 (UP) The AGM will be convened in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("the Act') and the Rules thereunder: provisions of Securities Exchange Board of

India (Listing Obligations Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended ("Listing Regulations")read with General Circular Nos. 14/2020 dated April 8, 2020, 17/2020 dated April 13, 2020, 20/2020 dated May 5, 2020,02/2021 dated Jan 13, 2021 02/2022 dated May 6, 2022 issued by Ministry of Corporate Affairs (MCA), and Securities and Exchange Board of India (SEBI) Circular No. SEBIHOI CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 In compliance with the abovementioned provisions and circulars the Notice of AGM and Annual Report including the Audited Financial Statements for the your ended 31st March

2023 have been e-mailed to all the Members whose e-mail IDs and registered with the Company or M/s. Alankit Assignments Limited ("RTA") and Depository Participant(s) ("DPs"). The electronic dispatch of Notice of AGM and Annual Report to Members has boon completed on 1st September, 2023. The Notice of the AGM and Annual Report are also available on website of the Company i.a., www.Sirshadilal.com, website of stock exchange i.e., at BSE Limited (www.bseindia.com) and on the website of NSDL (www.evoting.nsdl.com). The documents pertaining to the items of business to be transacted in the AGM shall be available for inspection upon login at NSDL e-voting system at https://www.evoting.nsdl.com. The requirement of sending physical copies o the Notice of the AGM and Annual Report for the Financial Year 2022-23 has been dispended with pursuant to the aforesaid MCN SEBI Circular. Instructions for Remote E voting and E-voting during the AGM:

Pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 44 of SEBI (Ligating Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and Secretarial Standard 2, the Company is pleased to provide the facility to Members to exercise their right to vote by electronic means on resolutions proposed to be passed at AGM. Members holding shareseither in physical form or dematerialized form, as on Monday, 18th September 2023 (cut-off date), shall cast their vote electronically through electronic voting system (remote e-voting) of NSDL at https://www.evoting.nsdl.com/. A person whose name is recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e voting. All the Members are hereby Informed that the Ordinary and Special Business, as set out in Notice of 89th AGM will be transacted through voting by electronic means only. The voting rights of the Members shall be in proportion to their share of the paid up equity share capital of the Company as on Monday, 18th September, 2023 (cut-off date). The remote e-voting period will commence on Friday, 22nd September, 2023 at 09:00 A.M. and ends on Sunday, 24th September, 2023 at 05:00 P.M. The remote e-voting module shall be disabled for voting at 05:00 pm on Sunday, 24th September, 2023. Once the vote on a resolution is cast by the member, the member cannot modify it subsequently Members who have acquired shares after sending the Annual Report through electronic means and before the cut-off date are requested to refer to the Notice of AGM for the proceed to be adopted for obtaining the USER ID and Password for Casting the vote. Members attending the AGM who have not cast their vote by remote e-voting shall be eligible to cast their vote through e-voting during the AGM. Members who have voted through remote e-voting shall be eligible to attend the AGM, however, they shall not be eligible to vote at the meeting. The procedure of electronic voting is available in the Notice of the AGM as well As in the email sent to the Members by NSDL. In case of any ueries/grievances, you may refer to the 'Frequently Asked Questions (FAQs) fo Members and 'e-voting user manual for Members available in the download section of the e-voting website of NSDL https://www.evoting.nsdl.com. Members who need assistance before or during the AGM with use of technology, can Send a request a evoting@nsdl.co.in or use Toll free no.: 1800-222-990; or Contact Ms. Himani Singh, Assistant Manager, NSDL, at designated e-mail IDs: evoting@nsdl.co.in The Notice of AGM is available on the Company's website www.sirshadilal.com, on the website of Stock Exchanges i.e., BSE Limited and on the website of NSDL at www.evoting.nsdl.com. Mr Sunil Kumar Jain (FCS:4079), Partner, Sunil K Jain & Co., Company Secretaries have been appointed as the Scrutinizer to Scrutinize the voting process before and during the AGM In a fair and transparent manner. Manner of registering updating small addresses: Members holding shares in physical mode and who have not updated their email addresses with the Company are requested to update their email addresses by writing to Alankit Assignments Limited, RTA of the Company at rtaalankit.com, or to the Company at cs@sirshadilal.com, along with the copy of the signed request letter mentioning the name, folio no., address of the member, Form ISR 1 (available on the website of the Company) self-attested copy of the PAN Card and self attested scanned copy of any document (such as Driving License, Election Identity Card, Passport, etc.) a proof of address of the Member. Please also send your bank detail with original cancelled cheque to our RTA (1.0., Alankit Assignments Limited, Alankit House, 4E/2, Jhandewalan Extension, New Delhi - 110055 along with letter mentioning folio no., If not registered already). Member holder shares in dematerialized mode are requested to register update their email addresses with the relevant Depository Participants. Please also update your bank detail with your DP for future benefits' directly in bank accounts, if not registered already. Mermbers are requested to update their email addresses by 18th September, 2023. After successful registration of the small address, the Mernbers of the Company as an the cutoff data i.e., 18th September, 2023, would receive a soft copy of the AGM Notice along with the Annual Report and Voting Instructions. In case of any queries, Members are requested to write to the RTA at alankit.com or to the Company at cs@sirshadilal.com This Notice is being issued for the Information and benefit of all the Members of the Company in compliance with the applicable Circulars of MCA and SEBI.

**Book Closure** 

Notice is hereby given that pursuant to the Regulation 42 of the Listing Regulations and Section 91 of the Act and the rules made thereunder, we wish to inform you that the Register of Members and Share Transfer Books of the Company shall remain closed From Tuesday, 19th September 2023, to Monday, 25th September 2023 (both days Inclusive)

For Sir Shadi Lal Enterprises Limited

By order of the Board

Place: Jaipur

Date: 1" September, 2023

**Ajay Kumar Jain** Company Secretary & Compliance Officer Membership No.: F5826 केनरा बैंक 🛆 Canara Bank STATE OF THE PARTY.

## Branch: SIS 126, Huda Market, Sector-3 Faridabad-121004

POSSESSION NOTICE [SECTION 13(4)] (For Immovable property) Whereas: The undersigned being the Authorised Officer of the Canara Bank under Securitisation And Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (Act 54 of 2002) (hereinafter referred to as "the Act") and in exercise of powers conferred under Section 13 (12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002, issued a Demand Notice dated 19/05/2023 calling upon the borrower Sri. Parsant Solanki and Sri. Sanjay Dagar to repay the amount mentioned in the notice, being Rs.11,01,598.27 (Rupees Eleven Lakh One Thousand Five Hundred Ninety Eight and Twenty Seven paisa only) within 60 days from the date of receipt of the

The borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him/her under section 13 (4) of the said Act, read with Rule 8 & 9 of the said Rule on this 29<sup>th</sup> day of August of the year 2023. The borrower/guarantor in particular and the public in general are hereby cautioned not to

deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of Canara Bank for an amount of Rs.11,01,598.27 (Rupees Eleven Lakh One Thousand Five Hundred Ninety Eight and Twenty Seven paisa only) and interest thereon. The borrower's attention is invited to the provision of Section 13 (8) of the Act, in respect of

time avialable, to redeem the secured assets.

Description of the Immovable Property All that Part and Parcel of the Property Consisting of Commercial Plot Measuring 660 sq yards

Comprised in Khasra No. 11 Killa No. 17(8-0) Mauza Samayour with in the registration Sub-District Ballabgarh District Faridabad. Bounded: By North: Rasta, By South: Vacant Land, By East: Rasta, By West: Fields.

Date: 02-09-2023 Place: Faridabad

Authorised Officer, Canara Bank

केनरा बैंक 🛆 Canara Bank THE PROPERTY.

Branch: Esskay Tower, Old Railway Road, Near Shiv Mandir, Gurgaon, Haryana-122001

POSSESSION NOTICE [SECTION 13(4)] (For Immovable property) The undersigned being the Authorised Officer of the Canara Bank under Securitisation And Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (Act 54 of 2002) (hereinafter referred to as "the Act") and in exercise of powers conferred under Section 13 (12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002, issued a Demand Notice dated 14/06/2023 calling upon the borrower M/s Sai Enterprises (Proprietor: Mr. Yudhveer Singh) And Mr. Yudhveer Singh & Mrs. Kavita Yadav to repay the amount mentioned in the notice, being Rs. 4,59,36,604.02 (Rupees Four Crore Fifty Nine Lacs Thirty Six Thousand Six Hundred Four and Zero Two paisa only) within 60 days from the

The borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him / her under section 13 (4) of the said Act, read with Rule 8 & 9 of the said Rule on this 30th day of August of the year 2023.

The borrower in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of Canara Bank for an amount of Rs. 4,59,36,604.02 (Rupees Four Crore Fifty Nine Lacs Thirty Six Thousand

The borrower's attention is invited to the provisions of Section 13 (8) of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets. Description of the Immovable Property

Residential House No 269, Sector - 5, UE Gurgaon (total extent of plot: 271.01 sq yards).

2. Flat no F503 on 5th floor, Tower memory, The Seven Lamps, Sector 82 A, Vatika India Next Gurgaon. Near Bestech Park View Apartment, Gurgaon.

3. Flat no H0302 in 3rd Floor, Tower H Godrej Summit Sector 104, Gurgaon. Date: 02-09-2023 Place: Gurgaon Authorised Officer, Canara Bank

Six Hundred Four and Zero Two paisa only) and interest thereon.



ADITYA BIRLA HOUSING FINANCE LIMITED Registered Office- Indian Rayon Compound, Veraval, Gujarat –

362266 Branch Office - Unit No. 301/301-A, 3rd Floor, Platina Tower, M.G. Road, Sector-28, Village Sikandarpur, Tehsil Wazirabad, District Gurugram-122022.

**APPENDIX IV** 

[See Rule 8 (1) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002] Possession Notice (for Immovable Property)

Whereas, The undersigned being the authorized officer of Aditya Birla Housing Finance Limited under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (54 of 2002) and in exercise of powers conferred under Section 13(12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 had issued a demand notice dated 19-06-2023 calling upon the borrowers Lal Chand Yadav, Usha Devi the amount mentioned in the notice being of Rs. 24,79,506.3/- (Rupees Twenty Four Lakh Seventy Nine Thousand Five Hundred Six and Three Paise Only) within 60 days from the date of receipt of the said notice. The borrowers having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrowers and to the public in general that the undersigned has taken Possession of the property described herein below in exercise of the powers conferred on him/her under Section 13(4) of the said Act. read with Rule 8 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 on this 01st Day of Sep of the year, 2023.

The borrowers in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of the Aditya Birla Housing Finance Limited for an amount of Rs. 24,79,506.3/-(Rupees Twenty Four Lakh Seventy Nine Thousand Five Hundred Six and Three Paise Only) and interest thereon. Borrowers attention is invited to the provisions of Sub-section 8 of Section 13 of the Act., in respect of time available, to redeem the

**Description of the Immovable Property** All That Piece And Parcel Of 1 Kita Plot No. 958, Admeasuring 42 Sq. Yds., Of

Land/Plot Area, Khasra No. 157, 158, 6304/159, 6307/160, Waka Sivaana Mauja, Gurgaon Gaon, Colony Rajendra Park, Gurugram, Tehsil And Distt- Gurgaon, Haryana-122001, And Bounded As: North: Other Property South: Road East: Plot No. 959 West: Plot No. 957.

**Authorised Officer** 

Date: 01.09.2023 Place: Gurugram

Aditya Birla Housing Finance Limited

**BFL ASSET FINVEST LIMITED** Regd. Office: 1, Taranagar, Ajmer Road, Jaipur-302006 • Ph.: 9214018877

E-mail: bfldevelopers@gmail.com • Website: www.bflfin.com • CIN: L45201RJ1995PLC010646 NOTICE OF 28TH ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE

AND REMOTE E-VOTING INFORMATION TO MEMBERS NOTICE IS HEREBY given that the 28th Annual General Meeting ("AGM") of the members of

BFL Asset Finvest Limited ("the Company") will be held on Tuesday, 26th day of September 2023 at 03:00 P.M. (IST ) through Video Conferencing / Other Audio Visual Means ("VC/OAVM" to transact the businesses as set out in the Notice of the AGM dated Tuesday, August 22, 2023 in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("Act") and rules made thereunder and the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations") without the physical presence of the Members at a common venue. Members participating through VC/OAVM facility shall be

reckoned for the purpose of quorum under section 103 of the Act. Pursuant to the applicable circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and Securities and Exchange Board of India ("SEBI") for conducting AGM through VC/OAVM, the electronic copies of the Notice of the AGM and the Annual Report for the financial year 2022-23 have been sent to all the members on Friday, September 01, 2023 whose e-mail IDs are registered with the Company /Depository Participant(s). The requirements of sending physical copy of notice of AGM and Annual Report to the Members have been dispensed with in

NOTICE IS FURTHER given that pursuant to Section 91 of the Act and Regulation 42 of Listing Regulations, Register of Members and Share transfer Books of the Company will remain closed from Wednesday, September 20, 2023 to Tuesday, September 26, 2023 (both days inclusive) for the purpose of 28th AGM of the Company to be held on Tuesday, September 26, 2023 through VC/OAVM. Pursuant to the provisions of Section 108 of the Act read with Rule 20 of The Companies

(Management and Administration) Rules, 2014 (as amended from time to time) and Regulation 44 of the Listing Regulations and Secretarial Standard on General Meetings issued by the Institute of Company Secretaries of India, the Company is providing e-voting facility to its Members through Central Depository Services (India) Limited ("CDSL") to exercise their right to vote electronically on businesses proposed to be transacted at the said AGM and the business may be transacted through voting by electronic means ('remote e-voting'). In this regard, the Members are hereby further informed that: (a) The remote e-voting period shall start at 09:00 A.M. (IST) on Friday, September 22,

2023 and shall end at 05:00 P.M. (IST) on Monday, September 25,2023. The remote e-voting shall not be allowed after 05.00 P.M. (IST) on Monday, September 25, 2023. The same will be disabled by CDSL thereafter. (b) A person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial

owners maintained by the depositories as on the cut-off date i.e. Tuesday, September 19, 2023 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting and e-voting at the AGM. The detailed procedure/ instructions for remote e-voting and e-voting are contained in the (c) Any person who acquires shares of the Company and becomes member of the Company after

dispatch of the Notice of AGM and holding shares as on the cut-off date i.e. Tuesday, September 19, 2023 may obtain the login ID and password by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com. However, if person is already registered with CDSL for remote e-voting then existing user ID and password can be used for casting vote. (d) Members who have not cast their vote by remote e-voting and are present in the AGM

through VC/OVAM, shall be eligible to vote through e-voting at the AGM. Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the

AGM through VC/OVAM but shall not be entitled to cast their vote again. (f) The Notice of AGM and the Annual report for the Financial Year 2022-23 is available on the Company's website https://www.bfffin.com/?page\_id=19#tab-id-3, website of the Stock Exchange i.e. BSE Limited at www.bseindia.com and on the website of e-voting service

provider of the Company i.e. CDSL at www.evotingindia.com.

(g) Any query(ies)/grievance(s) pertaining to voting by electronic means, the members may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) and remote e-voting user manual for members available at www.evotingindia.com under help section or contact Mr. Rakesh Dalvi, Sr. Manager (1800 22 55 33), CDSL, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (E), Mumbai + 400013 email: helpdesk.evoting@cdslindia.com. For BFL Asset Finvest Limited

> Mahendra Kumar Baid (Managing Director) (DIN: 00009828)



SHARIKA ENTERPRISES LIMITED CIN: L51311DL1998PLC093690

Regd. Off.: S-550-551, School Block Part-2, Welcome Plaza, Shakarpur, Delhi 110092

E-mail: info@sharikaindia.com, Website: www.sharikaindia.com INFORMATION REGARDING 25TH ANNUAL GENERAL MEETING OF THE COMPANY

Shareholders may note that the 25th Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held through Video Conferencing ("VC")/Other Audio Visual Means ("OAVM") facility on Thursday, September 28, 2023 at 03:00 P.M. IST in compliance with the provisions of Companies Act, 2013 and rules made thereunder and Securities and Exchange Board of India ("SEBI" (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulation, 2015, read with General Circular Nos. 20/2020 dated 5th May, 2020, 10/2022 dated 28th December, 2022 issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and Circular Nos. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P 2022/62 dated 13th May, 2022, SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated 5th January 2023 issued by SEBI, along-with other applicable Circulars issued in this regard by the MCA and SEBI, to transact the business that will be set forth in the Notice of the Meeting. In compliance with the above circulars, the electronic copies of the Notice of the AGM along with the Annual Report for financial year 2022-23 will be sent to all the shareholders whose

email addresses are registered with the Company/ Depository Participant(s). . Manner of registering/updating email addresses: (i) The members of the Company holding equity shares of the Company in Demat Form and who have not registered their e-mail addresses may send an e-mail to Skyline

Financial Services Private Limited at admin@skylinerta.com (ii) It is clarified that for permanent registration of email address, shareholders are requested

to register their email addresses, in respect of electronic holdings with their concerned Depository Participants by following the procedure prescribed by the Depository Participant. The notice of the 25th AGM and Annual Report for financial year 2022-23 will also be made available on the Company's website at www.sharikaindia.com, websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited at www.bseindia.com, and on the website of CDSL

Shareholders will have an opportunity to cast their vote remotely on the business as set forth in the Notice of the AGM through electronic voting system. The manner of voting remotely for shareholders holding shares in dematerialized mode and for shareholders who have not registered their email addresses will be provided in the Notice to the shareholders.

The 25th AGM Notice will be sent to the shareholders in accordance with the applicable laws on their registered email addresses in due course.

For Sharika Enterprises Limited

Place: New Delhi

Aditya Sharma

Date: September 01, 2023 Company Secretary & Compliance Officer

Name of the corporate debtor

for subsequent events of the

Date: 02.09.2023

INVITATION FOR EXPRESSION OF INTEREST FOR MILLENNIUM EDUCATION FOUNDATION OPERATING IN EDUCATION SECTOR AT NOIDA, UTTAR PRADESH (Under Regulation 36A(1) of the Insolvency and Bankruptcy Board of India Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016)

**RELEVANT PARTICULARS** 

MILLENNIUM EDUCATION FOUNDATION

CIN: U80904DL2014NPL269753

along with PAN/ CIN No. Flat No.633, T/F, LIG, Sector 18, Phase 2, Dwarka, Address of the registered office New Delhi -110078 Not Available Details of place where majority Plot No. SS-1, RG Residency, Sector 119, Noida, of fixed assets are located Uttar Pradesh- 201305 Installed capacity of main Not Applicable products/ services Quantity and value of main Revenue from Operations: FY 2019-20: Rs.9,41,04,357/-(Audited) products/ services sold in last FY 2022-23: Rs.9,07,26,100/-(Unaudited) financial year Number of employees/ workmen No. of Workmen;35 (Outsourced) No. of Employees: 77 Can be sought by sending an email to the Further details including last available financial statements Resolution Professional at: (with schedules) of two years, milleniumef.ip@gmail.com lists of creditors, relevant dates

Can be sought by sending an email to the 9. Eligibility for resolution applicants under section Resolution Professional at: milleniumef.ip@gmail.com 25(2)(h) of the Code is available at: 10. Last date for receipt of 18.09.2023 expression of interest 27.09.2023 11. Date of issue of provisional list

of prospective resolution 02.10.2023 Last date for submission of objections to provisional list milleniumef.ip@gmail.com, Process email ID to submit EOI hansrajchugh@ashm.in

Mr. Hans Raj Chugh Place: New Delhi. Regn No: IBBI/IPA-001/IP-P00698/2017-2018/11182 Regd. Address: E-24, (Basement), Lajpat Nagar-III, New Delhi-110024

For-Millennium Education Foundation (Under CIRP KARVYIII FINANCE

Corporate Office: M/s. Karvy Financial Services Limited, 301, 3rd Floor, Gujrals House, 167 CST Road, Kolivery Area Village, Kalina, Santacruz (E), Mumbai - 400098. Email: - Dattaprasad.naik@karvy.com; Contact No.: 9769454560

PUBLIC NOTICE FOR TENDER-CUM-AUCTION SALE SALE NOTICE THROUGH E- AUCTION (ONLINE AUCTION) UNDER SARFAESI ACT, 2002 CUM NOTICE TO SALE TO BORROWERS/GUARANTORS, RULE 8 & 9 UNDER

SECURITY INTEREST (ENFORCEMENT) RULES, 2002.

In exercise of powers conferred under Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 and pursuant to the possession of the secured assets of the borrower(s)/ mortgagors mentioned hereunder, the public and all concerned including the concerned borrowers/mortgagors, their legal heirs/ representatives, as the case may be are hereby informed that offers are invited by the Karvy Financial Services Ltd for purchase of the properties listed below.

Whereas the Authorized officer of the Karvy Financial Services Ltd has decided to Sell the property described herein below on "AS IS WHERE IS BASIS" AND "AS IS WHAT IT IS BASIS" under rules 8 & 9 of the said Act, through Public Auction. Loan Code No. 421053

Neeraj and Co-Borrower's (2) Veena Rani, Sachin & Desh Bandhu all are having

address House No. Wz 723, First Floor, Old-287, Rishi Nagar, Shakur Basti, New Delhi-110034. Demand Notice Date: 16th Sept 2020, Total Amount Due as per Demand Notice: Rs.96.65,779/- (Rupees Ninety Six Lakhs Sixty Five Thousand Seven Hundred and Seventy Nine Only) up to 14TH SEPT 2020. SCHEDULE OF PROPERTY

All That Piece And Parcel of the Property Bearing House No. WZ 723, Built of Land Measuring 94 Sq. Yrds, First Floor, Out of Khasra no. 369, situated in the area of Village Saleempur Mazra, Madipur, Old-287, Rishi Nagar, Shakur Basti, New Delhi-110034 which is bounded as under: North By: Other Property, South By: Other Property, East By: Road, West By: Other Property

AUCTION DETAILS

Date & Time of Public Auction | 19/09/2023 by 3 p.m. to 5 p.m. Venue M/s. Karvy Financial Services Limited , 301, 3rd Floor, Gujrals house, 167

CST Road, Kolivery Area Village, Kalina, Santacruz (E), Mumbai - 400098 Reserve Price Rs.38,00,000/- (Rupees Thirty Eight Lakhs Only )

Last date for Submission of Tender Form | 18/09/2023 Property Inspection Date | 16/09/2023 Earnest Money Deposit | Rs.3,80,000/- ( Rupees Three Lakhs Eighty Thousand Only)

IMPORTANT TERMS & CONDITIONS:

The intending bidders should be present in person for the Auction and

participate personally and give a declaration in writing to the effect that he/she is bidding for himself/herself. 2. The intending bidders may obtain the Tender Forms from the Manager, M/s. Karvy Financial Services Limited , 301, 3rd Floor, Gujrals house, 167 CST

Road, Kolivery Area Village, Kalina, Santacruz (E), Mumbai – 400098 The intending bidders should submit their bids only in the tender form prescribed in sealed envelopes addressed to the Authorised Officer, M/s. Karvy Financial Services Limited, together with a Pay Order/Demand Draft for an EMD

of 10% of the Reserve Price, drawn in favour of "Karvy Financial Service Limited" on or before 18-09-2023 by 6p.m of Tender-cum-Auction sale hereby notified. The Demand Draft will be returned to unsuccessful bidders For document verifications, intending purchaser may visit: M/s. Karvy

Financial Services Limited, 301, 3rd Floor, Gujrals house, 167 CST Road, Kolivery Area Village, Kalina, Santacruz (E), Mumbai – 400098. The Property/ies is sold on "AS-IS-WHERE-IS" AND "AS-IS-WHAT-IS" basis.

The Sealed Tenders will be opened in the presence of the intending bidders by

3p.m on 19-09-2023 of Tender-cum-auction Sale hereby notified. Though in general the same will be by way of closed tenders, the Authorized Officer may, at his sole discretion, conduct an open Auction among the interested bidders who desire to Quote a bid higher than the one received in the closed tender process, and in such an event, the sale shall be conferred on the person making highest bid. The sale, however, is subject to confirmation of M/s. Karvy Financial Services Limited.

The successful bidder shall have to pay/ deposit twenty five per cent (25%) (inclusive of EMD paid) of the sale amount immediately on the same day or not later than next working day on completion of sale and the balance amount of seventy five per cent (75%) within 15 days from the date of confirmation of Sale, failing which the initial deposit of 25% shall be forfeited. At any cost it shall not be refunded. The property shall forthwith be put up again and resold, after the issue of fresh proclamation of sale. 8. The Sale Certificate will be issued by the Authorized Officer in favor of the

successful purchaser only after receipt of the entire Sale consideration within the time limit stipulated herein. The Successful purchaser shall bear the charges/fees payable for conveyance,

such as stamp duty, Registration Fee etc., as applicable under law. The Successful bidder should pay the statutory dues (lawful house tax,

Electricity Charges and other Dues), TDS, GST if any, due to Government, Government undertaking and Local bodies. The Authorized Officer has absolute right to accept or reject Tender or Bid any or all the offers and adjourn/postpone/cancel the Auction without assigning any

reason thereof and also modify any terms and conditions of the sale without assigning any reason thereof and also to modify any terms and conditions of the sale without any prior notice. Place: Delhi

Date: 01.09.2023

PACIFIC INDUSTRIES LIMITED

Registered Office: Survey No. 13, N.H.48, Kempalinganahalli Village, Nelamangala Taluk, Bangalore-Karnataka 562123 Tel No. +91-8027723004; Fax: +91-8027723005 Corporate Office: Village Bedla, P.O. Box 119, Udaipur-313001 Tel No. +91-294-2440196, 2440388; Fax: +91-294-2440780

Email: pacificinvestor@rediffmail.com; Website: www.pacificindustriesltd.com CIN: L14101KA1989PLC062041 NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT the 34 Annual General Meeting of the members of M/s Pacific Industries Limited will be held on, Monday 25th

September, 2023 at SURVEY No.13, N.H.48, KEMPALINGANHALLI,

NELAMANGALA TALUKA BANGALORE KA 562123 at 12.30P.M. (Indian Standard Time) through Video Conferencing ("VC") or Other Audio Visual Means ("OAVM") to transact the business as set out in the notice. In view of the massive outbreak of the COVID-19 pandemic, social distancing is a norm to be followed and pursuant to the Circular No. 14/2020 dated April 8, 2020, General Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020, General Circular No. 22/2020 dated June 15, 2020, General Circular No. 33/2020 dated September 28, 2020, General Circular No. 39/2020 dated December 31, 2020, General Circular No. 10/2021 dated June 23, 2021, General Circular No. 20/2021 dated December 8, 2021 and General Circular No. 03/2022 dated May 5, 2022 and General Circular No. 10/2022 dated December 28, 2022 ("MCA Circular") ("MCA Circulars") and in compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 ("the Act") and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI LODR"), the 34"AGM of the Company is being conducted through VC/OAVM facility, which does not require physical presence of members at the venue of the Annual General Meeting (AGM), Registered Office of the Company shall be deemed to be the venue of this AGM.In compliance with the above circulars, the Annual report for the year 2022-23will be send only by email to all members of the Company whose email address are registered with the Company/RTA/ and Depository Participant(DP) and the aforesaid documents are also available on Company's website www.pacificindustriesItd.com. The Company is pleased to offer e-voting facility to the members to cast their

votes electronically on all resolution set forth in the notice convening the 34"Annual General Meeting. The company has engaged the services of National Securities Depository Limited (NSDL) to provide e-voting facility. In this regard, Shareholder's Demat Account/Folio Number have been enrolled by the company for the participation in e-voting on resolution placed by the evoting system.

Commencement of e-Voting 21st September, 2023 at 09.00 AM 24" September, 2023 at 05.00 PM End of e-Vidong

NOTICE IS ALSO HEREBY given pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013, that the Register of Members and register of Share Transfer books of the Company shall be closed from Monday, 18" September, 2023 to Monday, 25 September, 2023 (both days inclusive). For the purpose of Annual General Meeting.

Place: Udaipur

Date: 01" September 2023

By order of the board of Director For Pacific Industries Limited Sachin Shah Company Secretary

TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD Regd. Office: 11th Floor, Tower A. Peninsula Business Park, Ganpatrao

DEMAND NOTICE Under Section 13 (2) of the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 ("Act") read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 ("Rules").

Whereas the undersigned being the Authorised Officer of Tata Capital Housing Finance Limited (TCHFL) under the Act and in exercise of powers conferred under Section 13 (12) read with Rule 3 of the Rules already issued detailed Demand Notices dated below under Section 13(2) of the Act, calling upon the Borrower(s)/Co-Borrower(s)/Guarantor(s) (all singularly or together referred to "Obligors")/Legal Heir(s)/Legal Representative(s) listed hereunder, to pay the amounts mentioned in the respective Demand Notice/s, within 60 days from the date of the respective Notice/s, as per details given below. Copies of the said Notices are served by Registered Post A.D. and are available with the undersigned, and the said Obligor(s)/Legal Heir(s)/Legal Representative(s), may, if they so desire, collect the respective copy from the undersigned on any working day during normal office hours. In connection with the above, Notice is hereby given, once again, to the said Obligor(s) /Legal Heir(s)/Legal Representative(s) to pay to TCHFL, within 60 days from the date of the respective Notice/s, the amounts indicated herein below against their respective names, together with further interest as detailed below from the respective dates mentioned below in column (d) till the date of payment and / or realisation, read with the loan agreement and other documents/writings, if any, executed by the said Obligor(s). As security for due

the said Obligor(s) respectively. Contract Name of Obligor(s)/ Date of Total Outstanding Legal Heir(s)/Legal Dues (Rs.) as on Demand Notice Representative(s) below date\* Date of NPA Late Mr. Chander Pal Singh S/o Mr. As on 19/08/2023, an 21-08-2023 Jhau Lal Singh - Through His Legal amount of Rs. 10-05-2023 Heirs (Borrower) and Mrs. Kusum & 13,82,254 /- (Rupees Mr. Robinson Singh (Co Borrower/ Thirteen Lakh Eighty Legal Heir) & Mr. Vikas Singh & Ms. Two Thousand Two Rinki & Ms. Shilpi & Ms. Rashmi Hundred Fifty Four Description of the Secured Assets/Immovable Properties/ Mortgaged Properties:

repayment of the loan, the following Secured Asset(s) have been mortgaged to TCHFL by

All piece and parcel of Residential Flat bearing No. 503, 05th Floor, Type - A3, Tower No. Admeasruing Carpet Area 618.284 Sq. Ft. and Area of Balconies of Flat 50.470 Sq. Ft. Situated at Village Bathola, Locality known as Auric City Homes, Sector 82, Faridabad -121002 (Haryana). 987 Mr. Pravin Kumar As on 22/08/2023, an amount of Rs. | 22-08-2023

060 (Borrower) and Mrs. Meena 7,05,103 /- (Rupees Seven Lakh Five 07-08-2023 Thousand One Hundred Three Only) Karanwal (Co-Borrower) Description of the Secured Assets/Immovable Properties/ Mortgaged Properties All that piece and parcel of Residential Flat bearing No. E - 404, Tower/Block - E.

Admeasuring Super Area 970 Sq. Ft., Situated at Project Eliegant Ville, Plot No. GH - 06B,

Tech Zone – IV, Greater Noida (W), Gautam Budh Nagar – 201301 (Uttar Pradesh) Pradeep Kumar As on 22/08/2023, an amount of Rs. 513 (Borrower) and Mrs. Nirmal 27,15,251 /- (Rupees Twenty Seven 03-08-2023 22 Devi Alias Mrs. Nirmal Lakh Fifteen Thousand Two Hundred (Co-Borrower) Fifty One Only)

All that piece and parcel of Residential Flat bearing No. B - 710, 07th Floor, Tower B. Admeasuring Covered Area 669.41 Sq. Ft., Situated at Andromida Planet One admeasuring covered area 669.41 Sq Ft situated at Plot no. GH-07, Koyal Enclave, Loni Road, Ghaziabad - 201005 (Uttar Pradesh).

Description of the Secured Assets/Immovable Properties/ Mortgaged Properties:

941 Mr. Ravi Ranjan Sinha As on 22/08/2023, an amount of Rs. 22-08-2023 912 (Borrower) and Mrs. 12,24,589 /- (Rupees Twelve Lakh 07-08-2023 6 Anushree Sinha (Co-Twenty Four Thousand Five Hundred Borrower) Eighty Nine Only) Description of the Secured Assets/Immovable Properties/ Mortgaged Properties

G-8, Narela, New Delhi - 110040. 979 Mr. Harish Kumar As on 22/08/2023, an amount of Rs. 23-08-2023 12,67,168 /- (Rupees Twelve Lakh | 07-08-2023 479 Bhambhani (Borrower) and

Residential Flat bearing No. 9, Second Floor, LIG, Situated Block - F8, Pocket 03, Sector

7 Mrs. Mandeep Kaur (Co- Sixty Seven Thousand One Hundred Sixty Eight Only) Description of the Secured Assets/Immovable Properties/ Mortgaged Properties : All that piece and parcel of Residential Unit/Flat bearing No. Pine - 817, 08th Floor, Admeasuring Super Builtup Area 435 Sq. Ft., Situated at Tower Pine, Paramoun

Golf Foreste, Plot No. BGH – A, Site C (Ext.), Opp. Sector Zeta, Surajpur, Noida – 201306

(Uttar Pradesh). 9424 Mr. Vikram Singh As on 23-08-2023, an amount of 23-08-2023 771 Rawat (Borrower) Rs. 1153282/- (Rupees Eleven Lakh 07-08-2023 and Mrs. Anju Fifty Three Thousand Two Hundred Rawat (Co-Borrower) Eighty Two Only)

Description of the Secured Assets/Immovable Properties/ Mortgaged Properties: All that piece and parcel of Residential Flat No. 33, 03rd Floor, LIG, Block D - 03, Situated at Pocket 04, Sector 34, Rohini, Delhi - 110085

TCHIN0 Mrs. Sunita Jain As on 25/08/2023, an amount of Rs. 1,46,605/- 24-08-2023 (Rupees One Lakh Forty Six Thousand 03-08-2023 (Borrower) and 100080 Mr. Nitin Jain & Six Hundred Five Only) is due and payable by you under the Loan Account No. 922 & Mrs. Anju Jain TCHHL & Namya TCHHL0359000100080525 and an amount of 035900 Enterprises Rs. 43,96,835 /- (Rupees Forty Three Lakh 010008 Through its Ninety Six Thousand Eight Hundred Thirty Five Only) is due and payable under the Loan Proprietor 0525 (Co-Borrower) Account No. TCHIN0399000100080922 by you i.e totaling to Rs. 45,43,440 /- (Rupees

Hundred Forty Only) Description of the Secured Assets/Immovable Properties/ Mortgaged Properties "All that Piece & Parcels of Double Storey Builtup Freehold Residential Property bearing No. 91 (With Roof/Tarrace Rights,), Admeasuring 48 Sq. Mtrs., Plinth Area 96 Sq. Mtrs. Situated at Pocket – 08, Block – B, Sector – 05, Rohini – 110085 (New Delhi), with all common amenities mentioned in Sale Deed. Boundaries: East - Plot No. 52, West - Open

Forty Five Lakh Forty Three Thousand Four

\*with further interest, additional Interest at the rate as more particularly stated in respective Demand Notice dated mentioned above, incidental expenses, costs, charges etc incurred till the date of payment and/or realization. If the said Obligor(s) shall fail to make payment to TCHFL as aforesaid, then TCHFL shall proceed against the above Secured Asset(s)/Immovable Property(ies) under Section 13(4) of the said Act and the applicable Rules entirely at the risk of the said Obligor(s)/Legal Heir(s)/Legal Representative(s) as to

the costs and consequences. The said Obligor(s)/Legal Heir(s)/Legal Representative(s) are prohibited under the said Act to transfer the aforesaid Secured Asset(s)/Immovable Property, whether by way of sale, lease or otherwise without the prior written consent of TCHFL. Any person who contravenes or abets contravention of the provisions of the Act or Rules made thereunder

shall be liable for imprisonment and/or penalty as provided under the Act. Sd/-Date: 02/09/2023 Sd/-Authorised Officer. **Authorised Officer** Place: Delhi For Tata Capital Housing Finance Limited M/s. Karvy Financial Services Limited

North - Plot No. 92, South - Plot No. 90."

New Delhi

financialexp.epapr.in

Date: 01.09.2023

for the purpose of AGM

Place: Shamli

दैनिक नवज्योति

चित्रकूट थाना पुलिस

ने की कार्रवार्ड

नवज्योति, जयपुर। चित्रकृट

थाना पुलिस ने शुक्रवार को वाहन

चोरी करने वाली गैंग के तीन शातिरों

को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार

आरोपी दिनेश उर्फ अजय देव

श्योपुर एमपी, राहुल गवारिया

फतेहपर सीकर और सरजीत सिंह

सरूंड का रहने वाला है। हाल में

तीनों जयपुर में अलग-अलग

जगह पर किराए के मकानों में

रहते हैं। थानाप्रभारी बलबीर सिंह

बनारस रेल इंजन कारखाना, वाराणसी–221004

ई-निविदायें

भारत के राष्ट्रपति के लिए एवं उनकी ओर से निम्नलिखित वस्तुओं का आपूर्ति हेतु ई-निविदायें

आमंत्रित की जाती हैं। केवल ई-प्रस्ताव ही स्वीकार्य है, जिसके लिए वैंडर का क्लास-॥

का डिजीटल सिग्नेचर एवं (IREPS) पर पंजीकरण आवश्यक है निविदाओं का विवरण निम्

क्रम से हैं:- क्र.सं., निविदा संख्या, (खुलने की तिथि), विवरण और मात्रा। 1. 01231157

(19.09.2023), आयल पैन मसीनिंग एसेम्बली, पार्ट सं. 16020534, 1 अदद, 2. 03231027E

(15.09.2023), केंट्रेल सेकेण्डरी मेम्बर, पार्ट सं. 29179427, 20 सेट, 3. आर / ए डबल बिड सिस्टम

04230110B (02.11.2023), बैटरि बॉक्स, पार्ट सं. 29680013, 1022 अदद, 4. 04231241 (28.09.2023)

मोटर एण्ड ब्लोवेर अससेंबली, पार्ट सं. 17050042, 168 सेट, 5. 05235179 (18.09.2023), मोट

इनकोडार केबल, 01 अदद, 6. 05235079A (06.09.2023), सिनामिक्स एक्टिव लाईन मॉड्यूल

01 अदद, 7. 06231103 (30.10.2023), हाई वोल्टेज केबल विथ प्लग स्पेक नं. CLW/ES/3/025

(रिव. 1 दिसम्बर 06) टू. पार्ट सं. 29600406, 494 सेट, 8. 10231329 (20.09.2023), बेयरिंग — इन्सर्ट पार्ट सं. 16150090, 9972 अदद। उक्त निविदाओं का विस्तृत विवरण www.blw.indianrailways.gov.in और www.ireps.gov.in पर उपलब्ध है। सुद्धि पत्र : 9.

बिड सं: 41, निविदा सं: 05225164C, वर्तमान खुलने की तिथि : 24.08.2023, संशोधित खुलने की तिथि : 24.08.2023, संशोधित खुलने की तिथि : 24.08.2023, संशोधित खुलने की तिथि : 04.09.2023, 10. बिड सं: 43, निविदा सं: 05235085, वर्तमान खुलने की तिथि : 04.09.2023, 11. बिड सं: 41, निविदा सं: 05235097, वर्तमान खुलने की तिथि : 24.08.2023, संशोधित खुलने की

ानावरा सं.: 05235097, वतमान खुलन की तिथि : 24.08.2023, संशोधित खुलन की तिथि : 04.09.2023, 12. बिड सं.: 41, निविदा सं.: 05235159, वर्तमान खुलने की तिथि : 23.08.2023, संशोधित खुलने की तिथि : 04.09.2023, 13. बिड सं.: 41, निविदा सं.: 052251238, वर्तमान खुलने की तिथि : 25.08.2023, संशोधित खुलने की तिथि : 05.09.2023

14. बिड सं.: 41, निविदा सं.: 05225137A, वर्तमान खुलने की तिथि : 25.08.2023, संशोधित खुलने की तिथि : 05.09.2023, 15. बिड सं.: 41, निविदा सं.: 05225138A, वर्तमान खुलने की तिथि : 25.08.2023, संशोधित खुलने की तिथि : 05.09.2023, 16. बिड सं.: 41, निविदा सं.: 05235073B, वर्तमान खुलने की तिथि : 24.08.2023, संशोधित खुलने की तिथि : 05.09.2023, 17. बिड सं.: 41, निविदा सं.: 05235131, वर्तमान खुलने की तिथि : 05.09.2023, 17. बिड सं.: 41, निविदा सं.: 05295131, वर्तमान खुलने की तिथि : 05.09.2023, 18. बिड सं.: 41, निविदा सं.:

29.08.2023, संशोधित खुलने की तिथि : 08.09.2023, 23. बिड सं.: 43, निविदा सं.

05225222A, वर्तमान खुलने की तिथि : 29.08.2023, संशोधित खुलने की तिथि : 08.09.2023,

24. बिड सं.: ई-30 / 2023-24, निविदा सं.: 06230176, रिविजन-01, वर्तमान खुलने की

तिथि : 28.08.2023 संशोधित खुलने की तिथि : 08.09.2023, वर्तमान मात्रा : 1072 अदद, संशोधित मात्रा : 1929 अदद, 25. बिंड सं.: ई-30/2023-24, निविदा सं.: 0623186, रिविजन-01, वर्तमान खुलने की तिथि : 30.08.2023 संशोधित खुलने की तिथि :

08.09.2023, वर्तमान मात्रा : 1353 सेट, संशोधित मात्रा : 2601 सेंट, 26. बिंड सं ई-34/2023-24, निविदा सं.: 06231096A, रिविजन-01 वर्तमान खुलने की तिथि

29.08.2023 संशोधित खुलने की तिथि : 31.08.2023 नोटः उपरोक्त सभी निविदाओं की

प्रमुख मुख्य सामग्री प्रबंधक

आवास फाईनेन्सियर्स लि

मंजिल, साउथेण्ड

मानसरोवर

इण्डस्ट्रियल एरिय

जयपर - 302020

संपत्ति का संपत्ति की निविदा खोले निविदा खोलने, जमा आरक्षित धरोहर जाने की तिथि कराने व नीलामी का स्थान

व समय

प्रात:11 बजे

से दोपहर 1

बजे तक

दिनांक

2023

प्राधिकृत अधिकारी आवास फाईनेंसियर्स लिमिटेड

धरोहर राशि

मूल्य

वाहन चोरी करने वाली

गैंग के तीन सदस्य पकड़े

चार बाइक. दो ऑटो और ई-रिक्शा बरामद

ई -निविदा सूचना 10/2023-24

अजमेर जिले के विद्यालयों महात्मा गांधी राजकीय विद्यालयों (अंग्रेजी माध्यम) जिला अजमेर में मानव सेवा मय सामग्री उपलब्ध कराने हेतु वार्षिक संविदा के लिए दरें आमंत्रित की जाती हैं। अन्य वांछित विवरण वेबसाइट http://www.sppp.raj.nic.in एवं http://eproc.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है । अति . जिला परियोजना समन्वयक NIB CODE-RSE2324A0777 समग्र शिक्षा अभियान, अजमेर

Rajasthan Forestry and Biodiversity Development Project (RFBDF (funded by the French Development Agency)

Notice for Contractual Engagement											
ement	Unit,	RFBDP,	Jaipur	proposes	to	engage	the	S			

S.No.	Position	No. of Post	UBN No.
1	Senior Project Manager(Coordinator)	01(one)	FOR2324SLOB00603
2	Project Manager(ESMP)	01(one)	FOR2324SLOB00604
3	Project Manager (GIS)	01(one)	FOR2324SLOB00605
4	Project Manager (MIS)	01(one)	FOR2324SLOB00606

application format may be downloaded from http://sppp.rajasthan.gov.in http://forest.rajasthan.gov.in.or.http://afd.dgmarket.com elephone - +91-141-2709101/5199654 mail: rfbdp.afd@gmail.com

Project Directo Raj.Samwad/C/23/8505 RFBDP DNJ-296532



#### बैला कासा फैशन एंड रिटेल लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय- ई-102, 103, ईपीआईपी, सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र, जयपुर - 302022 (राजस्थान)

वेबसाइट - www.bellacasa.in, CIN- L17124RJ1996PLC011522, E-mail- info@bellacasa.in, दूरभाष संख्या- 0141- 2771844

एतद्वारा नोटिस दिया जाता है कि कंपनी की सत्ताइसवी (27 वीं) वार्षिक आम बैठक 'एजीएम'') बुधवार, 27 सितंबर, 2023 को दोपहर 12:00 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग "वीसी")/अन्य ऑडियो विजुअल साधन (''ओएवीएम'') सुविधा के माध्यम से कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके तहत नियमों और सेबी (लिस्टिंग दायित्वों और प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियम 2015 के साथ कॉपोर्रेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी जनरल सर्कुलर संख्या 14/2020, 17/2020, 20/2020, 02/2021, 19/2021, 21/2021 और 02/2022 दिनांक 08 अप्रैल 2020, 13 अप्रैल 2020, 05 मई 2020, 13 जनवरी, 2021, 8 दिसंबर, 2021, 14 दिसंबर, 2021 और 5 मई, 2022 क्रमशः (एमसीए सर्कुलर) और भारतीय प्रतिभृति विनिमय बोर्ड ("सेबी सर्कुलर") द्वारा जारी सर्कुलर सं. सेबी /एचओ / सीएफडी/सीएमडी1/सीआईआर पी /2020/79 दिनांक 12 मई 2020, परिपत्र सं. सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी 2/सीआईआर/पी/2021/11 दिनांक 15 जनवरी, 2021, सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी 2/सीआईआर/पी/2022/62 दिनांक 13 मई, 2022 और सेबी/एचओ / सीएफडी/पीओडी-2/पी/सीआईआर/2023/4 दिनांक 05 जनवरी, 2023 के अनुसार लागू प्रावधान के अनुपालन में।

एमसीऐ सर्कुलर तथा सेबी सर्कुलर के अनुसार 27वीं एजीएम की सुचना, 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्त वर्ष के वित्तीय विवरणों सहित वित्तीय वर्ष 2022-23 की एकीकृत वार्षिक रिपोर्ट ''वार्षिक रिपोर्ट'') केवल उन सभी सदस्यों को ईमेल द्वारा भेजी जाएगी, जिनके ईमेल पते कंपनी / डिपॉजिटरी प्रतिभागी (ओं) के साथ पंजीकृत हैं । एमसीए परिपत्र (ओं) और सेबी परिपत्र के अनुसार सदस्य केवल वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से 27 वीं एजीएम में शामिल हो सकते हैं और भाग ले सकते हैं।27वीं एजीएम में शामिल होने और 27वीं एजीएम के दौरान ई-वोटिंग सिस्टम के माध्यम से रिमोट ई-वोटिंग या वोट डालने के तरीके में भाग लेने के निर्देश 27 वीं एजीएम की सचना में दिए गए हैं। वीसी/ओएवीएम सविधा के माध्यम से भाग लेने वाले सदस्यों की गणना कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के तहत कोरम की गणना के उद्देश्य से की जाएगी। 27वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट कंपनी www.bellacasa.in की वेबसाइट और स्टॉक एक्सचेंज बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com पर भी उपलब्ध कराई जाएगी ।

किसी स्थान पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना आमंत्रित की गई है

सदस्यों से अनुरोध किया जाता है कि वे डिमेट होल्डिंग्स के संबंध में अपने संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए अपना ई-मेल पता पंजीकृत कराएं। जिन सदस्यों ने अपना ईमेल पता पंजीकृत नहीं कराया है, वे 27 वीं एजीएम की सूचना में वर्णित प्रक्रिया का पालन करके बैठक के दौरान दूरस्थ ई-वोटिंग या ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से अपना वोट डाल सकते हैं।

उन शेयर धारकों के लिए प्रक्रिया जिनके ई-मेल पते इस सूचना में प्रस्तावों के लिए ई- वोटिंग के लिए लॉगिन केडिशियल्स प्राप्त करने के लिए डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत नहीं है:

डीमैट शेयर धारकों के लिए : कृप्या डीमैट खाता विवरण ( सीडीएसएल - 16 अंकों की लाभार्थी आईडी या एनएसडीएल-16 अंक डीपी आईडी- सीएलआईडी) नाम, ग्राहक मास्टर या समेकित खाता विवरण की प्रति, पैन (पैन कार्ड की स्व. सत्यापित स्कैन कॉपी) आधार (सेल्फ अटेस्टेड स्कैन की गई प्रति) जैसे आवश्यक विवरण कार्ड) कंपनी ईमल आईडी cs@bellacasa.in तथा आरटीए की ईमेल आईडी einward.ris@kfintech.com पर पदान करें।

किसी भी प्रश्न के मामले में, सदस्य सहायता अनुभाग के तहत www.evotingindia.com पर उपलब्ध अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न ("एफएक्यू") और ई-वोटिंग मैनुअल का उल्लेख कर सकते हैं या helpdesk.evoting@cdslindia.com को एक ईमेल लिख सकते हैं या

180022 55 33 पर सम्पर्क कर सकते है। उपरोक्त जानकारी कंपनी के सभी सदस्यों की सूचना तथा हितों के लिए तथा समय समय फ

271,550.00/

व₹

बकाया दिनांक

01 सितम्बर 2023

संशोधित एमसीए तथा सेबी सर्कुलर के अनुपालन में जारी है। स्थानः जयपर

∆ayas

जा रहे है । प्रकरणों का विशेष विवरण इस प्रकार है-

खाता सं. : LNMJP09320-210171180

खाता सं. : LNMJP02219-200132446

दिनांकः 02.09.2023 स्थानः जयपुर

01 मूखण्ड (सामान्य गोदाम् हेतु)

राज.संवाद /सी / 23 / 8510

बीकानेर कार्यालय में एवं विभाग की वेबसाईट पर किया जा सकेगा।

बंधककर्ता का नाम

जमानतदार : प्रवीन कमार शर्मा

दिनांकः 01 सितम्बर, 2023

बैला कासा फैशन एंड रिटेल लिमिटेड के लिए एसडी 🗸 सोनिका गुप्ता (कंपनी सचिव)

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभृतिकरण व प्रतिभृतिहित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के शर्ते व नियम 8(6) के अन्तर्गत अचल सम्पत्ति की नीलामी विक्रय सूचन

डिमांड नोटिस

26 नवम्बर 2021

₹ 130771/-

बकाया दिनांक

25 नवम्बर 2021

की राशि व दिनांक

#### भतीजी-भाभी का बनाया अश्लील वीडियो, केस दर्ज

जयपुर।सुभाष चौक थाना इलाके में एक व्यक्ति ने नाबालिग भतीजी एवं भाभी का नहाने के दौरान अश्लील वीडियो बनाने का मामला सामने आया है। इस संबंध में पीडित किशोरी और महिला की दूसरी बेटी ने शुक्रवार को थाने में चाचा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है।शिकायत में बताया कि आरोपी ने उनकी मां एवं बहन का अश्लील वीडियो बना लिया और टोकने पर गाली-गलौज करता है।शुक्रवार सुबह पीडिता ने वीडियो देखा तो परिवार के अन्य लोगों को बताया। तब वीडियो डिलीट कर दिया। आरोप है कि कुछ समय पहले हुई उनके पिता की मौत के दौरान समाज के लोगों से मिले रुपए भी चाचा ने हड़प लिए।

### इनामी अपराधी गिरफ्तार

जयप्र। साउथ जिले की डीएसटी टीम और मानसरोवर थाना पुलिस ने शुक्रवार को दो हजार के इनामी अपराधी को गिरफ्तार किया है। आरोपी गोपाल जाट जगत शिरोमणीपुरा मुहाना का रहने वाला है। आरोपी छह साल से फरार था।इस पर एक दर्जन से अधिक धोखाधड़ी और एनआईएक्ट के प्रकरण दर्ज है। मुखबीर की सूचना पर पुलिस ने चाकसू से फागी रोड पर कादेडा के पास से पकड लिया।

बिड संख्या : ई-49/2023-24

पी.आर / बरेका / एस-53

आवास फाईनेंसियर्स लिमिटेड

रजि. & कॉर्पोरेट ऑफिस: 201-202, दूसरी मंजिल, साउथ एण्ड स्ववायर, मानसरोवर इण्डस्ट्रियल एरिया, जयपुर-302020

संपत्ति का विवरण

(प्रतिभृति आस्ति)

फ्लेट नं टी-1, तीसरी मंजिल, यश

अपार्टमेंट-X™, प्लॉट नं. ए-74 पर निर्मित,

मांगानेर, जयपुर, राजस्थान **क्षेत्रफल 1**560

वर्ग फीट

दाद दयाल नगर, ए-ब्लॉक, कल्यानपरा

निविदा सूचना

आमजन तथा एवं व्यक्ति विशेष देनदारों तथा जमानती को सचित किया जाता है कि निम्न उल्लेखित प्रत्याभत ऋणदाता की गिरवी/प्रभारित अचल सम्पत्ति, जिसका भौतिक कब्जा आवास फाईनेंसियर्स लिमिटेड ( पूर्व में एयू फाईनेंसियर्स ( इण्डिया ) लिमिटेड के नाम से ज्ञात ) के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया था, प्रत्याभृत ऋणदाता ''जैसे है जहाँ है ''जो भी और जैसा भी है के आधार पर विक्रय करन

निविदा की शर्ते : 1. निविदा में सहमागिता करने हेतु इच्छुक खरीददार अपनी निविदा शाखा में उपलब्ध निविदा प्रपत्र जो कार्य दिवस के समय शाखा से प्राप्त किये जा सकते हैं, में अपने द्वारा निवेदित मूल्य लिखकर सीलबंद लिफाफे मे

ानाववा का रात : 1. नानवा न सहमानित कर तर लुई इस्कुळ बराववार अपना नाववा मुख्यालाकर सालवार वालाकर सालवार वालाकर जिसके ऊपर ''टेण्डर ऑफर सम्पत्ति का विवरण'' लिखा हो के साथ उपरोक्त वर्णिव धरोहर राशि के कैशानिय हाएक की का प्रिक्त के आप होन्य शिक्ष के आप होने के का मिया हो के अपने के का मिया हो के अपने के माम से झात) के प्रस में जयपुर में देय हो, नीलागी से पहले कार्य विवस के दौरान आवास फाईनेंसिस्पर्स लिमिटेड 'क्रिया मार्च कार्य होने सिस्पर्स लिमिटेड 'क्रिया मार्च कार्य होने सिस्पर्स लिमिटेड के नाम से झात) के उपरोक्त पर जप्त में अपने से अपने से आप के उपरोक्त पर जपिया कि स्वाद के अपने से आप के उपरोक्त पर जप्ति वा कि स्वाद के अपने से आप के उपरोक्त पर जपिया कि स्वाद के अपने से आप के उपरोक्त पर जपिया कि स्वाद के अपने के प्रस्कृत कि स्वाद के अपने के उपरोक्त पर उपस्थित निविदाकर्ताओं के समक्ष खोली जावेगी। इसके पश्चात निविदाकर्ताओं के बीच खुली बोली लगवाने का विकल्प प्रायक्ति के अपने स्वाद के अपने के अपने कि समक्ष खोली जावेगी। इसके पश्चात निविदाकर्ताओं के बीच खुली बोली लगवाने का विकल्प प्रायक्ति के अपने समक्ष खोली जावेगी। इसके पश्चात निविदाकर्ताओं के बीच खुली बोली लगवाने का विकल्प प्रायक्ति के उपने समक्ष खोली जावेगी। इसके पश्चात निविदाकर्ताओं के बीच खुली बोली लगवाने का विकल्प प्रायक्ति के अपने स्वाद के अपने के अपने कि समक्ष खोली जावेगी। इसके पश्चात निविदाकर्ताओं के बीच खुली बोली लगवाने का विवार कर के नाम से इसले के उपने से अपने के उपने सिक्त के अपने सिक्त के अपने सिक्त के अपने से अपने से अपने सिक्त के अपने सि

अधिकारी के द्वारा सफल निविदाकर्ता के नाम की उद्योषणा करने के तुरन्त पश्चात, जमा करवाना होगा तथा शेष राशि विक्रय की पुष्टि के दिन से 30 दिन के अन्दर जमा कराना आवश्यक है, अन्यया जमा राशि विना सूचना बैंक जावकार के द्वार संज्ञक निवासकार के निर्माण करने के पुरत्त प्रचार, जमा करवाना होगा तथा श्रेष राशी पढ़क के जिए के उठ रहन के जपर जमा कराना जावकार के जल्द समझी जावेगी 13. प्राधिकृत अधिकारों के बिना कोई कारण बताये बोली विकार अध्यवा अस्वीकार करने वा पूर्ण यो निविदा स्थित करने का पूर्ण अधिकार है। निविदा जमा कराने व निविदा खोलने वाली विनांक को राजकीश अवकाश होने की स्थित में निविदा अगले कार्य दिवस वाले दिन होगी। 4. सम्पत्ति के निरीक्षण हेतु सम्पत्ति अथवा निविदा से संबंधित जानकारी हेतु इच्छुक निविदाकर्ता, आवास फाईनीसयर्स लिमिटेड (पूर्व में ''ए. यू. हाउसिंग फाईनेंस लिमिटेड ''के नाम से ज्ञाते) 201–202, दूसरी मंजिल, साज्य एण्ड स्ववायर, मानसरोवर इण्डस्ट्रियल एरिया, जयपुर-302020 **अनिल शर्मा** – **7440410757 नोटः**- यह सुचना पत्र ऋणी/जमानती/बंधककर्ताके लिए भी नियम 9 (1)/8(6) के अधीन 15/30 दिवस का सूचना पत्र माना जायेगा कि यदि बैंक को देय राशि की अदायगी उनके द्वारा महीं की जाती है तो उक्त संपत्ति निविदा द्वारा उपरोक्त दिनांक पर ही विक्रय की जाएगी।

2022

f 💆 💿 /blwvaranasi

कस्वां ने बताया कि आरोपियों के कब्जे से चोरी की चार बाइकें, दो ऑटो, एक रिक्शा सहित आठ बैटियां बरामद कर ली। पूछताछ में करीब दो दर्जन से ज्यादा चोरी की वारदातें कबुली हैं। आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस टीम ने 35 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों के फटेज खंगालकर पहचान कर-के पकड़ा। आरोपी रात के समय रैकी कर मानसरोवर, श्याम नगर, वैशाली नगर, भांकरोटा, चित्रकूट और करधनी इलाके में चोरियां

मशीन से तोड़ी गयी ट्रैक गिट्टी का उत्पादन, आपूर्त्त

और ढेर लगाना ई-निविदा सूचना सं. 94/डब्ल्यू-2/ नेम्नलिखित कार्य के लिए अधोहस्ताक्षरी द्वार ई-निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं: **निविदा** सं: 31-एपी-III-2023। **कार्य का नामः**- न्यृ माल जं. डिपो में ताजा सुधार पर्चिया के साथ आरडीएसओ विनिर्देशन (आईआरएस-जीई-1) को पुष्टि करनेवाली मशीन से तोड़ी गयी ट्रैक का उत्पादन, आपूर्त्ति और ढेर लगाना तथ हॉपर में गिद्री को लादना और टैक में हॉपर से गेट्टी को उतारना और समान रूप से फैलाना निविदा मूल्य: ₹13,77,03,344.80; धरोहः राशि: ₹8,38,500.00। ई-निविदाएं 22-09-2023 को 13:00 बजे **बंद होंगी** और 22 09-2023 को 15:00 बजे **खुलेंगी**। उपरोक्त ई-निविदा के निविदा कागजात के साथ संपूर्ण सूचना वेबसाइट <u>http://www.ireps.gov.ir</u>

डीआरएम ( कार्य ), अलीपुरद्वार जं. पूर्वोत्तर सीमा रेलवे प्राहकों की सेवा में मुस्कान के साथ

Regional Office (Jaipur-North) খাতাংখ্যান খাত্ৰথ সৰুখুদ্য নিশ্বস্নতা মুখ্তন Rajasthan State Pollution Control Board Opp. Road No. 5, VKIA, Sikar Road, Jaipur ে গাৰা-2850100 e-mail rorpch.jaipur@gmail.co stie: http://www.environment.rajasthan.gov.in पर्यावरण स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सुचना

24.08.2023, संशोधित खुलने की तिथि : 05.09.2023, 18. बिड सं.: 41, निविदा सं.: 05225135A, वर्तमान खुलने की तिथि : 28.08.2023, संशोधित खुलने की तिथि : 06.09.2023, 19. बिड सं.: 41, निविदा सं.: 05225136A, वर्तमान खुलने की तिथि : 28.08.2023, पर्याद्धारण स्वीकृति देतु ब्रोक सुरावाई के विषय साम सुरावा सर्व-सामारण को स्वित्त किया जाता है कि बन, पर्वादरण और जलवाय प्रपित्तने मजातय, भारत सरकार, नहें दिल्ली की प्रधारण प्रमाव आंकलन अधिस्तृचना क्रमांक एस.औ. 1833 दिनांक 14,09,2006 के प्रात्वानों के अंतरांत में सहारक्षणी निनरलन के प्रस्तावित विस्तार Production Capacity of Silica Sand from 32500 PR (ROM) to 317460 PR (ROM), M.L. No.: 0.296, M.L. Area:: 12.499 ha at Khasar No. 981, 982, 988 8,7211 Apra Village: Samod, Tehsli: Chomu, District : Jalipur के लिये पर्यादरणीय त्योकृति के प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण विसंत्रण सम्बद्धान के दुर्ग स्वाद्यांक्षण राजस्थान राज्य प्रदूषण विसंत्रण सम्बद्धान के दुर्ग स्वाद्यांक्षण राजस्थान राज्य प्रदूषण विसंत्रण सम्बद्धान विद्या वात्रा स्वाद्धान को अधितिक्षित) के समझ प्रस्तुत्त किये गांडे हैं सुक्त मांचा के अधितिक्षित) के समझ प्रस्तुत किये गांडे हैं सुक्त मांचा कर 30 दिवस का नीटिंस दिया जाना आवश्यक है। अतः समस्त संबंधित को इस नीटिस के माध्यम सं राज्य प्रवादांक्षणीय स्वीकृति से संबंधित प्रकरण के निपदर्श के विश्व राज्य प्रवादांक्षणीय स्वीकृति से संबंधित प्रकरण के निपदर्श के विश्व राज्य प्रवादांक्षणीय स्वीकृति से संबंधित प्रकरण के निपदर्श के विश्व राज्य समस्त्रम मामाने, तहसील चीमूं, जिला- जयपुर् (पण्डा, में प्रविश्वत होकर पुझान/आवेष्य प्रस्तुत कर सकते हैं। इस समस्त्रम में विधित्र सुझाव/आवेष्य प्रस्तुत कर सकते हैं। इस समस्त्रम में विधित्र सुझाव/आवेष्य प्रस्तुत कर सकते हैं। इस समस्त्रम में विधित्र सुझाव/आवेष्य प्रसुष्ट (जरार) रोज निवंद्रण मण्डलवा के वेद्यांक्षण के स्वास्त्रम के स्वास्त्रम अवस्त्रम अवस्त्रम के प्रवित्र कर सकते हैं। इस सम्बन्ध में विधित्र सुझाव/अवस्त्र प्रसुष्ट (जरार) रोज निवंद्रण मण्डलवा के सुस्तिक स्वर्य अवस्त्रम मामार्वाला के सुस्तान के सुक्तिक स्वर्यान के सुक्तिक सुक्तान के सुक्तिक स्वर्यान के सुक्तिक सुक्तिक सुक्तान के सुक्तिक सुक्तान सुक्तान के सुक्तिक सुक्तान सुक संशोधित खुलने की तिथि : 06.09.2023, 20. बिड सं: 43, निविदा सं: 05225139A, वर्तमान खुलने की तिथि : 29.08.2023, संशोधित खुलने की तिथि : 06.09.2023, 21. बिड सं: : 43, निविदा सं: 05225140A, वर्तमान खुलने की तिथि : 29.08.2023, संशोधित खुलने की तिथि : 08.09.2023, 22. बिड सं: 43, निविदा सं: 05225148A, वर्तमान खुलने की तिथि : rorpcb.jaipur@gmail.com) के साथ-04- संस्थानिक क्षेत्र, झालाना ढूंगरी, जयपुर प

रिष्यानपर कते हैं | ो संबंधित सक्षिप्त अमिलेख (कार्यपालक सार म्माफित कार्यातची में उपराव है— फिला कलेक्टर, व्ययुर (2) क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्था-व्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, जयपुर (रुपर) (3) राजस्था-व्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, जयपुर (रुपर) (3) राजस्था-व्य प्रदूषण नियंत्रण विभाग, राजस्थान सरकार, शास-देखालय, जयपुर (5) जिला उद्योग केन्द्र, अयपु-अतिरिक्त जिला कलेक्टर जयपुर शास्ट (उस्त्र), जयपु-क्षेत्रीय कार्यालय, वन, यर्यावरण और जालवायू परिवत-वात्रप मारत सरकार, उद्यावनी मन्त्रप, जालाना बूंग्रप, अयपुर पंचायत समिति, तहसील— गोविन्दगढ़, जिला— क्ययुर । मारा परिवट बीसी उद्यावश्री

प्रभावतः जागानः, ज्यापुर। नगर परिषदः चौमूं, जयपुर। विजय शर्मा (क्षेत्रीय अधिकारी

अभियांत्रिकी कार्य

ई-निविदा सूचना सं. 29, 2023; दिनांक 30-08-2023। निम्नलिखित कार्य के लिए अधोहस्ताक्षरी द्वारा ई-निविदाएं आमंत्रित की

निविद्या **सं** • डीसीईएसटीएसएलजी-01 2023। **कार्य का नाम एवं स्थान:** मालीगांव क्षेत्राधिकार के अंतर्गत ईस्ट गोटानगर, सेंटल गोटानगर, ईस्ट मालीगांव और वेस्ट मालीगांव में अगल अलग व्यास के सर्विस पाइप लाइन्स क मरम्मत। निविदा मूल्य: ₹1,80,00,187.78 धरोहर राशि: ₹2,40,000.00।

निविदा सं.: डीसीईएसटीएमएलजी-02 2023। **कार्य का नाम एवं स्थानः** मालीगांव में- एसएसई/डब्ल्यू/एनएमबी के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कॉलोनी नाले की मरम्मत। निविदा मल्य: ₹1.80.01.480.58; धरोहर राशि: ₹2,40,000.00

निविदा सं.: डीसीईएसटीएमएलजी-03-023। **कार्य का नाम एवं स्थानः** मालीगांव अंतर्गत गौशाला गोल पार्क से वेस्ट नामबाड़ी के रेलवे सीमा तक जाने वाली सड़क और सेंट्रल अस्पताल मालीगांव से आदर्श कॉलोनी और वेस्ट गोटानगर कॉलोनी के बरास्ते बी.जी. कॉलोनी तक जाने वाली सड़क की मरम्मत। निविद मूल्य: ₹2,14,30,435.50; धरोहर राशि:

₹2,57,200.00 I निविदा सं.: डीसीईएसटीएमएलजी-04 2023। **कार्य का नाम एवं स्थानः** एनएमबी में- एसएसई/डब्ल्यू/एनएमबी के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत एनएमबी कॉलोनी अर्ध-पक्का में गौशाला कॉलोनी 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 88, 89,192, 194, 254, 255, 196, 198, 200, 202, 204, 206, 208, 210, 212, 214, 216, टाइप-॥ (92 यूनिट), टाइप-॥।, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 (20 यूनिट) कलर कोटेड रूफिंग शीट प्रदान करके लकी एसी शीट रूफिंग आवासीय क्वार्टरों (अर्ध-पक्का) की मरम्मत। निविदा मूल्य: ₹2,48,10,378.37; धरोहर राशि: ₹2,74,100.00। निविदा सं.: डीसीईएसटीएमएलजी-05-

<u> 2023</u>। **कार्य का नाम एवं स्थानः** मालीगांव एसएसई/डब्ल्य/एचक्य/मालीगांव के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत ईस्ट गोटानगर, सेंट्रल गोटानगर, ईस्ट मालीगांव और वेस्ट मालीगांव में कॉलोनी सर्विस डेन्स की मरम्मत। निविदा मुल्य: ₹1,80,83,990.93; धरोहर राशि: ₹2,40,400.00। निविदा मं : डीसीईएसटीएमएलजी-06-

2023। **कार्य का नाम एवं स्थान:** एचक्य, गांव में- एसएसई/डब्ल्यू/एचक्यू/मालीगांव के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत 120 यूनिट आवासीय क्वार्टरों का स्पेशल मरम्मत। निविदा मूल्यः ₹1,91,65,131.57; धरोहर राशि: ₹2,45,800.00 ई-निविदाएं 21-09-2023 को 13.00 बजे बंद होंगी और 21-09-2023 को 13.00 बजे **खुलेंगी**। विवरण के लिए <u>www.ireps.gov.in</u>

उप मख्य अभियंता/एस्टेट, मालीगांव पूर्वोत्तर सीमा रेलवे ाहकों की सेवा में मुस्कान के साथ



Regd Head Office: Zain G. Rangoonwala Building, 78, Mohammad Ali Road, Mumbai - 400 003 Phone: 23425961/62/63/64, 23449586, 62552800

#### NOTICE TO MEMBERS

Notice is hereby given that the 86th Annual General Meeting of the Members [Shareholders] of BOMBAY MERCANTILE CO-OPERATIVE BANK LIMITED will be held on Monday, September 18, 2023 at 10.30 a.m. at Baitul Hujjaj [Haj House], 2nd Floor, 7 - A, M.R.A. Marg [Palton Road], Mumbai - 400 001 to transact the following business:

- To confirm the Minutes of the last Annual General Meeting held on 02<sup>nd</sup> September, 2022.
- 2. To consider and adopt the Report of the Board of Directors and the Audited Balance Sheet, Profit & Loss Account and Statutory Auditor's Report for the year ended as on 31st March, 2023.
- 3. To appropriate Net Profit as recommended by the Board of Directors for the year ended 31st March,
- 4. To approve the appointment of Statutory Auditors for the Bank for the year 2023-2024 and fix their
- 5. To consider the Annual Budget of the Bank for the year 2023-2024.
- 6. To approve the amendment in Bye-Law Nos.4 [d], 5, 35[1] and [2], 44[1] and 44[3] as per Annexure
- 7. To grant Leave of Absence to the Members of the Bank who have not attended this  $86^{
  m th}$  Annual General
- 8. Any other issue / business with the permission of the Chair.

By Order of the Board of Directors Sd/-[ DR. M. SHAH ALAM KHAN ]

MANAGING DIRECTOR

Note:

Date: August 31, 2023

Place: Mumbai.

- If there is no quorum within half an hour after the appointed time, the Meeting shall stand adjourned to 11.00 a.m. on the same day and the Agenda of the Original Meeting shall be transacted at the said venue, irrespective of the rule of quorum, in terms of Bye-Law No.39.
- Any Member desiring information pertaining to Accounts, is requested to write to the Bank, at-least six days in advance of the date of the Annual General Meeting.
- Copies of the Annual Report are available at the Head Office and the Branches of the Bank



# एयु स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड (ए शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक)

रजिस्टर्ड ऑफिस: 19-A, धुलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड़, जयपुर-302001 (CIN:L36911RJ1996PLC011381) सिक्युरिटाईजेशन अधिनियम २००२ की धारा १३ (२) के अन्तर्गत मांग सूचना पत्र

अधोहरताक्षरकर्ता एयू रमांल फाईनेंस बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी है।''वित्तीय आस्तियों का प्रतिभृतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभृति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 की''धारा 13(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी ने ऋण खातों के गैर निष्पादनीय आस्तियों (एन.पी.ए.) होने पर नीचे दी गई तालिका के अनुसार ऋणीयों/सह-ऋणीयों/ गारण्टर बंधककर्ताओं (जिन्हें आगे ऋणी/ऋणीयों के नाम से सम्बोधित किया जायेगा) को 80 दिनों के नोट्स प्रेषित किये थे, नोटिस के अनुसार ऋणाया / सह-ऋणाया / गारण्टर बावककताआ (जिन्ह आग ऋणा/ ऋणाया के नाम स सम्बाधित किया जायगा) को 60 दिनों के नीटिस प्रमुण ऋण राशि जिना है तो प्राधिकृत अधिकारी प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में अधिनियम की धारा 13 उपधारा 4 व 14 के अन्तर्गत कदम उठाने हेतु रवतंत्र होगा। जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ उत्ते प्रतिकृत अस्तियों का कब्जा लेने की पत्ति तथा उनका विक्रय करना सम्मिलित है। अतः आप ऋणीयों को यह सूचित किया जाता है कि निम्न सूची में दी गई सम्पूर्ण बकाया ऋण राशि भविष्य के ब्याज तथा खर्चों एवं लागतों इत्यादि के साथ 60 दियस के भीतर जमा करवा दें। इसके अतिरिक्त आप ऋणीयों को यह सूचित किया जाता है कि उपयोग्ध तथा (13) में निर्विष्ट सूचना को प्राप्ति के पश्चात प्रतिभूत लेनदार की पूर्व लिखित सहमति के बिना

ऋण खाता संख्या / ऋणी/सहऋणी/	धारा 13(2) के अन्तर्गत नोटिस की दिनांक व राशि	बंधक सम्पत्ति का विवरण		
बन्धकर्ता/गारन्टर का नाम (खाता सं.) L9001070517684402 भूप सिंह (ऋणी),	13 जुलाई 2023 ₹ 222365/-	सम्पत्ति स्थित अर्बन इंग्रूवमेंट ट्रस्ट (यूआईटी) किला नं09 मुराबा नं6/7 चक थी ई छोटी,		
इन्दरा भूपसिंह सांखला (सह-ऋणी)	रु. दो लाख बाईस हजार तीन सौ पैंसठ मात्र दिनांक 19 जुलाई 2023 तक	जिला-गंगानगर, राजस्थान <b>क्षेत्रफल 637.5 वर्ग फी</b>		
(खाता सं.) L9001070617269040 भूप सिंह (ऋणी), इंदरा भूपसिंह सांखला (सह-ऋणी)	20 जुलाई 2023 ₹ 924955/- रु. नी लाख चौबीस हजार नौ सौ पचपन मात्र दिनांक 19 जुलाई 2023 तक	सम्पत्ति स्थित अर्बन इंग्रूवमेंट ट्रस्ट (यूआईटी) किला नं09 मुराबा नं6/7 चक थ्री ईं छोटी, जिला - श्रीगंगानगर, राजस्थान क्षेत्रफल 637.5 वर्ग फीट		
(खाता सं.) L9001060118794329 मैसर्स माही ब्रदर्स जिरेए श्रीमती बिमला देवी - विधिक उत्तराधिकारी प्रोपराइटर - स्वर्गीय श्री घुन्दर लाल सैनी, श्रीमती बिमला देवी (सह-ऋणी व विधिक उत्तराधिकारी वर्गीय श्री सुन्दर लाल सैनी - सह-ऋणी), अमित सैनी (सह-ऋणी व उत्तराधिकारी स्वर्गीय श्री सुन्दर लाल सैनी - सह-ऋणी)	24 जुलाई 2023 ₹ 636782/- रु. छः लाख छत्तीस हजार सात सौ बयासी मात्र दिनांक 24 जुलाई 2023 तक	सम्पत्ति स्थित पट्टा नं. 21, ग्राम नारायणपुर, तहसील थानागाजी, जिला-अलवर, राजस्थान, क्षेत्रफल 244.55 वर्ग गज		
खाता सं.) L9001060715686863 दीपक सैनी (ऋणी), श्रीमती गुङ्डी सैनी सह-ऋणी), विनोद सैनी (सह-ऋणी)	26 जुलाई 2023 ₹ 5817613/- रु. अठावन लाख सन्नह हजार छः सौ तेरह मात्र दिनांक 26 जुलाई 2023 तक	सम्पत्ति स्थित सोसायटी पट्टा 1999 से पहले दिनांकित है, प्लॉट नं. ए-४२, श्याम वाटिका ए जयपुर, जिला-जयपुर, राजस्थान क्षेत्रफल 166.66 वर्ग गज		
(खाता सं.) L9001060814177882 राम स्वरूप चौघरी (ऋणी), राम स्वरूप जाट (सह-ऋणी), केशर लाल (सह-ऋणी), श्रीमती सोनी देवी (सह-ऋणी), जगदीश जी (सह-ऋणी)	26 जुलाई 2023 ₹ 1638193/- रु. सोलह लाख अड़तीस हजार एक सौ तिरानवे मात्र दिनांक 25 जुलाई 2023 तक	(1) सम्पत्ति स्थित प्लॉट नं. 328, स्कीम नं. 39, स्वर्णपुरी, कनकपुरा, जिला - जयपुर, राजस्थान क्षेत्रफल 200 वर्ग गज (2) सम्पत्ति स्थित प्लॉट नं. 325 स्कीम नं. 39, स्वर्णपुरी, कनकपुरा, जिला - जयपुर, राजस्थान क्षेत्रफल 200 वर्ग गज (3) सम्पत्ति स्थित प्लॉट नं. 340, स्कीम नं. 39, स्वर्णपुरी, कनकपुरा, जिला - जयपुर, राजस्थान क्षेत्रफल 200 वर्ग गज (4) सम्पत्ति क्षित्व प्लॉट नं. 341, स्कीम नं. 39, स्वर्णपुरी, कनकपुरा, जिला - जयपुर, राजस्थान क्षेत्रफल 200 वर्ग गज		
(खाता सं.) L9001060100095921 राम स्वरूप चीधरी (ऋणी), राम स्वरूप जाट (सह-ऋणी), जगदीश जो (सह-ऋणी), श्रीमती सोनी देवी (सह-ऋणी), क्रेशर लाल (सह-ऋणी) जमानतदार : काना राम चीधरी	26 जुलाई 2023 ₹ 1017458/- रु. दस लाख सत्रह हजार चार सौ अठावन मात्र दिनांक 25 जुलाई 2023 तक	(1) सम्पत्ति स्थित प्लॉट नं. 328, स्कीम नं. 39, स्वर्णपुरी, कनकपुरा, जिला - जयपुर, राजस्थाः क्षेत्रफल 200 वर्ग गज (2) सम्पत्ति स्थित प्लॉट नं. 32 स्कीम नं. 39, रवर्णपुरी, कनकपुरा, जिला - जयपुर राजस्थान क्षेत्रफल 200 वर्ग गज (3) सम्पत्ति स्थित प्लॉट नं. 340, स्कीम नं. 39, स्वर्णपुरी, कनकपुरा, जिला - जयपुर, राजस्थान क्षेत्रफल 200 वर्ग गज (4) सम्पत्ति स्थित प्लॉट नं. 341, स्कीम नं. 39, स्वर्णपुरी, कनकपुरा, जिला - जयपुर, राजस्थान क्षेत्रफल 200 वर्ग गज		
(खाता सं.) L9001060819183472 अंबिका फुट वियर (ऋणी), राजू (सह-ऋणी), रामनिवास किरोड़ीवाल (सह-ऋणी), अमर चंद प्रजापत (सह-ऋणी)	26 जुलाई 2023 रैं 657081/- रु. छः लाख सत्तावन हजार इकासी मात्र दिनांक 25 जुलाई 2023 तक	सम्पत्ति स्थित पट्टा नं. 545, मोहल्ला अगुना, वार्ड नं. 1, बीदासर, जिला - चूरू, राजस्थान क्षेत्रफल 40 वर्ग गज		
(खाता सं.) L9001060700495359 तोला राम सोनी (ऋणी), गणेश मल सोनी (सह-ऋणी), श्रीमती गीता (सह-ऋणी), मूलचंद (सह-ऋणी)	09 अगस्त 2023 ₹ 530889/- रु. पाँच लाख तीस हजार आठ सौ उनासी मात्र दिनांक 07 अगस्त 2023 तक	सम्पत्ति स्थित व्यवसायिक सम्पत्ति पट्टा नं. 11 बुक नं. 11 ग्राम बेलासर नोखा, जिला बीकानेर राजस्थान <b>क्षेत्रफल 2736 वर्ग फीट</b>		
(खाता सं.) L9001060816840040 ओमप्रकाश (ऋणी), श्रीमती सरोज देवी (सह-ऋणी) जमानतदार : सुशील कुमार	09 अगस्त 2023 ₹ 448553/- रु. चार लाख अड़तालीस हजार पांच सौ तिरपन मात्र दिनांक 07 अगस्त 2023 तक	सम्पत्ति स्थित ग्राम पंचायत बस स्टैंड के पास शहीद निहाल चंद मूर्ति ग्राम सांवतसर बीकाने डूंगरगढ़, जिला- बीकानेर, राजस्थान क्षेत्रफल 7149 वर्गगज		
(खाता सं.) L9001060116918307 ननमोहन समोता (ऋणी), श्रीमती संजया देवी (सह-ऋणी), श्रीमती नन्ची देवी (सह-ऋणी), बाबू लाल (सह-ऋणी)	09 अगस्त 2023 ₹ 1381951/- रु. तेरह लाख इकासी हजार नौ सौ इकावन मात्र दिनांक 07 अगस्त 2023 तक	सम्पत्ति स्थित नगर निगम वार्ड नं. 9, मीणों क मोहल्ला, तहसील- श्रीमाधोपुर, जिला- सीकर, राजस्थान <b>क्षेत्रफल 98.7 वर्ग गज</b>		
(खाता सं.) L9001061124294755 गोपाल राम शर्मा (ऋणी)	09 अगस्त 2023 ₹ 124382/- रु. एक लाख बौबीस हजार तीन सौ बयासी मात्र दिनांक 07 अगस्त 2023 तक	सम्पत्ति स्थित - गांधी पार्कशी, वार्ड नं 01, ग्राग् बरदादास, तहसील व जिला - चूरू, राजस्थान क्षेत्रफल 2300 वर्ग मीटर		
(खाता सं.) L9001060114023912 गोपाल राम शर्मा (ऋणी), श्रीमती विनीता शर्मा (सह-ऋणी), प्रभुदयाल (सह-ऋणी), चेतन शिक्षण संस्थान (सह-ऋणी) जमानतदार : वीरेंद्र सिंह राठौड़	09 अगस्त 2023 ₹ 733309/- रु. सात लाख तैंतीस हजार तीन सौ नौ मात्र दिनांक 07 अगस्त 2023 तक	सम्पत्ति स्थित ग्राम पंचायत 12, भमशी चूरू, जिला-चूरू, राजस्थान <b>क्षेत्रफल 2751.06 वर्ग फी</b> ट		
(खाता सं.) L9001060116762536 प्रकाश चंद रैगर (ऋणी), रामावतार रैगर (सह-ऋणी), राम किशोर रैगर (सह-ऋणी), श्रीमती रुकमा देवी (सह-ऋणी)	09 अगस्त 2023 ₹ 1169585/- रु. ग्यारह लाख उनहत्तर हजार पांच सौ पचासी मात्र दिनांक 07 अगस्त 2023 तक	सम्पत्ति स्थित विकास प्राधिकरण (आवासिय/ व्यवसायिक) पी.नं. 1074 स्कीम मनोहर पुरा वं बी., जयपुर, जिला-जयपुर, राजस्थान क्षेत्रफल 38.95 वर्ग गज		
(खाता सं.) L9001060117470018 महेंद्र कुमार सैनी (ऋणी), श्रीमती मीनू सैनी (सह-ऋणी)	09 अगस्त 2023 ₹ 670823/- रु. छः लाख सत्तर हजार आठ सौ तेईस मात्र दिनांक 07 अगस्त 2023 तक	सम्पत्ति स्थित सोसायटी पट्टा दिनांकीत 1999 बाद की, प्लॉट नं. 01, हनमुन नगर ग्राम महार कला चोमू, जिला-जयपुर, राजस्थान क्षेत्रफल 272.22 वर्ग गज		
(खाता सं.) L9001060117640838 ओम प्रकाश (ऋणी), इंसा (सह-ऋणी), मूला राम (सह-ऋणी) जमानतदार : सहीराम पुनिया	09 अगस्त 2023 ₹ 605372/- रु. छः लाख पांच हजार तीन सौ बहत्तर मात्र दिनांक 07 अगस्त 2023 तक	सम्पत्ति स्थित ग्राम पंचायत पट्टा नं. 52, मिस्त नं. 79, मध्य बीकानेर तह. नोखा, जिला-बीकाने राजस्थान <b>क्षेत्रफल 1094.11 वर्ग गज</b>		
(खाता सं.) L9001061121047925 गुजानंद ऑटोमोबाइल्स (ऋणी), गंगेश कमार	09 अगरत 2023 ₹ 334191/-	सम्पत्ति स्थित नगर निगम हाउस नगर पालिका 2209 रूपा व्यास की गली पंडित शिवटीन का		

₹ 334191/-

रु तीन लाख चौंतीस हजार एक सौ

₹ 2856679/-

रु. अठाईस लाख छप्पन हजार छः सौ

उनासी मात्र दिनांक 07 अगस्त 2023 तक

₹ 264215/-

. दो लाख चौसठ हजार दो सौ पन्द्रह मा

दिनांक 07 अगस्त 2023 तक

09 अगस्त 2023

रु. छः लाख इक्कीस हजार छः सौ नवासी

मात्र दिनांक ०७ अगस्त २०२३ तक

09 अगस्त 2023

₹ 325057/-

रु. तीन लाख पच्चीस हजार सत्तावन मात्र

दिनांक 07 अगस्त 2023 तक

09 अगस्त 2023

₹ 903066/-रु. नौ लाख तीन हजार छियासठ मात्र

नेन्यानये मात्र दिनांक 07 अगस्त 2023 तक

कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति (अनाज) पूगल रोड़, बीकानेर

कृषि उपज मण्डी सिमिति (अनाज) पूगल रोड़, बीकानेर में तथा राज्य की किसी भी मण्डी सिमिति में अधिसूचित कृषि जिन्सों का व्यवसाय करने वाली पात्र सक्रिय अनुज्ञापत्रधारी (संयुक्त / 'क' वर्ग दलाल/व्यापारी/सीधी खरीद व्यापारी) फर्मों,कृषक उत्पाद संगठन/कम्पनी जिन्हे मण्डी समिति द्वारा सीधी खरीद के अनुज्ञापत्र दिये गये है एवं जैविक खेती करते हो,तेल मिल व अन्य कृषि जिन्स प्रसंस्करण ईकाई (मण्डी के बाहर) अनुज्ञापत्रधारी फर्मों, सम्बंधित वर्ग की पात्रता रखने वाले ऐसे विशेष योग्यजन (निशक्तःजन) जो विधिमान्य गठित चिकित्सा बोर्ड से 40 प्रतिशत या इससे अधिक निःश्क्तता का प्रमाण पत्र धारण करते हो एवं मण्डी क्षेत्र में स्थायी रूप से निवास करने वाले कृषक जो कि रुवंय के नाम से गत 02 वितिय वर्ष पूर्व से मण्डी क्षेत्र में न्यूनतम 01 बीघा कृषि

भूमि धारक हो एवं जमाबन्दी के साथ गिरदावरी से सम्बंधी अभिलेख प्रस्तुत करते हो, के लिए मुख्य मण्डी प्रांगण (अनाज) पूगलरोड़, बीकानेर में अनुज्ञप्त कृषि जिन्सों के व्यवसाय हेतु निम्न

विवरणानुसार ले–आउट प्लान में रिक्त चिन्हित भूखण्डों का द्वितीय एवं पश्चातवर्ती चरण की प्रक्रिया के तहत आवंटन अचल सम्पति आवंटन नीति 2005 एवं समय–समय पर इस नीति में हुए

संशोधनों के फलस्वरूप प्रचलित प्रावधानान्तर्गत निर्धारित शर्तों पर 99 वर्षीय लीज पद्धति पर आवंटन करने हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं– कृषक अनारक्षित "क" वर्ग दलाल, संयुक्त व्यापारी व व्यापारी वर्ग के अनुज्ञापत्रघारी तेल मिल व | जैविक अन्य कृषि प्रस. ईकाई अन्य मण्डी समिति के अनुज्ञापत्रधारी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अनुज्ञापत्रधारी अनुज्ञापत्रधारी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अनुञ्जापत्रधारी वर्ग अनुञ्जापत्रधारी नामान्य नि:शक्त साम संगठन नारक्षित निःशक्त गन्य निःशक्त सामान्य निःशक्त सामान्य नि:शक्त सामान्य नि:शक्त सामान्य नि:शक्त य निःशक्त मनारक्षित निःशक्त महिला 10 मूखण (दुकान मर प्लेटफार्म) साईज 02 00 01 04 17 01 01 01 निर्मित os निर्मित

01

भ्रतः इच्छक कृषक एवं हितबद्ध अनुज्ञापत्रधारी आवेदक निर्धारित आवेदन पत्र, जो इस कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्यालय समय में 500 / – रूपये राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट / बैकर चैक ाप किया जा सकता है, आवेदन में उल्लेखित समस्त प्रविष्ठियों की पूर्ति कर वांछित दस्तावेजों एवं 30,000 / 🗕 रू० की अमानत राशि का डिमाण्ड ड्रापट / बैकर चैक जो ''कृषि उपज मण्डी समिति (अनाज) पूगल रोड् शिकानेर'' के नाम हो, के साथ दिनांक 05.10.2023 को सायं 05:00 बजे तक प्राप्त कर दिनांक 11.10.2023 को सायं 05:00 बजे तक इस कार्यालय में जमा करा सकते हैं। बिना अमानत राशि के आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जावेगा। आवेदक एक प्रकार के ही भूखण्ड साईज के लिए 01 ही आवेदन कर सकता है। एक से अधिक आवेदन करने पर आवंटन आवेदन निरस्त कर दिया जावेगा। आरक्षित श्रेणी के आवेदन पत्रों के साथ सम्बन्धित श्रेणी के दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत नहीं करने पर उसे निरस्त करने / सामान्य श्रेणी में सम्मिलित करने का अधिकार आवंटन समिति को होगा। अपूर्ण आवंदन पत्रों को निरस्त कर दिया जायेगा तथा मूखण्ड आवंटन के लिए विचार नहीं किया जावेगा। मण्डी समिति की अनुज्ञापत्रधारी फर्मों के वर्गवार भूखण्डों का आरक्षण एवं अन्य शेष शतों का अवलोकन किसी भी कार्य दिवस को कार्यालय समय में कृषि उपज मण्डी समिति(अनाज)पूगलरोड़

DNJ-296540

















गजानंद ऑटोमोबाइल्स (ऋणी), गंगेश कुमार

गजानंद ऑटोमोबाइल्स (ऋणी), गंगेश कुमार

गुप्ता (सह-ऋणी), सुनील शर्मा (सह-ऋणी), श्रीमती शकुंतला शर्मा (सह-ऋणी)

शिव टेलर्स व गारमेंटस जरिए प्रोपराइटर राज

(सह-ऋणी), कालू राम योगी (सह-ऋणी)

(सह-ऋणी), श्रीमती माया देवी (सह-ऋणी)

योगी, राजू योगी (सह-ऋणी), श्रीमती पूजा देवी

(सह-ऋणी), सुनील शर्मा (सह-ऋणी)

(खाता सं.) L9001060117129203

(खाता सं.) L9001060117784155

(खाता सं.) 19001060118059978

(खाता सं.) L9001060115973342

(खाता सं.) L9001060123735446

श्रीमती प्रेमलता मीणा (सह-ऋणी)

होटल रिद्धि सिद्धि व रेस्टोरेंट (ऋणी),

रामपाल स्वामी (ऋणी), रूडमल स्वामी

(सह-ऋणी), श्रीमती गुलाब देवी (सह-ऋणी)

दिनांकः 01-09-2023

प्राधिकृत अधिकारी एयू स्मॉल फाइनेंस बेंक लिमिटेड

2209 रूपा व्यास की गली पंडित शिवदीन का

रास्ता जयपुर, जिला-जयपुर, राजस्थान

क्षेत्रफल 111.31 वर्ग गज

सम्पत्ति स्थित एचएन 2209 का पूर्वी भाग, रूपा

व्यास की गली, चौकड़ी मोढ़ी खाना, किशनपोल

बाजार, जिला - जयपुर, राजस्थान

क्षेत्रफल १११.३१ वर्ग गज

सम्पत्ति स्थित ग्राम पंचायत मुंडरू श्रीमाधोपुर,

जिला- सीकर, राजस्थान क्षेत्रफल 74.22 वर्ग गज

सम्पत्ति स्थित ग्राम पंचायत धांधोलाई, दौसा,

बसवा, जिला-दौसा, राजस्थान

क्षेत्रफल 62.22 वर्ग गज

सम्पत्ति स्थित ग्राम -जैतूसर की आबादी भूमि,

पट्टा नं. 01, संकल्प नं. 06, बुक नं. 267,

पंचायत समिति व तह.-श्रीमाधोपर, जिला-सीकर

राजस्थान क्षेत्रफल 102.92 वर्ग गज

सम्पत्ति स्थित फ्रीहोल्ड - नगरपालिका सीमा अर्ध

शहरी व ग्रामीण सवाई माधोपुर, जिला- सवाई

माधोपुर, राजस्थान **क्षेत्रफल 200 वर्ग गज**